



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 732 राँची, सोमवार,

30 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 जून, 2017

संख्या- 5/आरोप-1-60/2015-34 (HRMS)-- चूंकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है की श्री चन्द्र किशोर मंडल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-483/03), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, धनबाद के पद पर कार्यावधि में श्री मंडल द्वारा दिया गया प्रतिवेदन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-नियंत्री पदाधिकारी के दायित्व के अनुरूप नहीं है, क्योंकि सरकारी राशि जिस योजना के लिए स्वीकृत है, व्यय भी उसी योजना में किया जाना नियमानुकूल है, लेकिन इनके द्वारा इसे नजरंदाज किया गया, जो वित्त नियमावली के नियम-10 एवं 11, वित्त विभाग के पत्रांक-71, दिनांक 9 जनवरी, 2002 तथा 179, दिनांक 3 अगस्त, 2014 के प्रतिकूल है, जैसा की विभाग द्वारा गठित प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री मंडल के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद द्वारा श्री मंडल को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने कि तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भू उपलब्ध कराएँ ।
4. श्री मंडल द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों कि जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची कि संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते है ।
5. श्री मंडल कि विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority
1	CHANDRA KISHORE MANDAL (BHR/BAS/1520)	श्री मंडल के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502
